



जनसम्पर्क कार्यालय : एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

समाचार

बिजली कंपनियों 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर मनाएंगी भव्य हिंदी महोत्सव **बिजली कर्मियों के लिए रोचक साहित्यिक प्रश्न मंच का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण**

जबलपुर, 7 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर इस वर्ष बिजली क्षेत्र की जबलपुर स्थित चारों बिजली कंपनी- एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एवं मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में भव्य हिंदी महोत्सव का आयोजन होगा। विद्युत परिवार हिंदी महोत्सव में 14 सितंबर को शक्तिभवन स्थित केन्द्रीय ग्रंथालय में अपरान्ह 3.30 बजे से साहित्यिक प्रश्न मंच स्पर्धा का आयोजन होगा। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन व मध्यप्रदेश विद्युत परिवार हिंदी समिति के अध्यक्ष श्री एम.पी. चिंचोलकर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि हिंदी दिवस पर बिजली कर्मियों के लिए रोचक साहित्यिक प्रश्न मंच का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता स्थल पर ही विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

हिंदी समिति के हिंदी समिति के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी श्री राकेश पाठक, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन श्री आलोक श्रीवास्तव, साहित्य सचिव श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव, महासचिव श्री राजेश पाठक, श्री पंकज स्वामी, श्री हिमांशु श्रीवास्तव, श्रीमती नुसरत सिद्धीकी, श्री मोहन श्रीवास, श्रीमती शिल्पा ताम्हणे, श्रीमती रेणू सैनी, श्रीमती सविता उपाध्याय, श्रीमती मीना पाठक, सतीश जैन, प्रांशु केसरवानी एवं श्री जे.डब्ल्यू. खारपाटे ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एवं मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी हिंदी के प्रति समर्पित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने का अनुरोध किया है।

समाचार क्रमांक 424/2018

(राकेश पाठक)
वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ए.पी. भैरवे, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्रबंध संचालक श्री पी.ए.आर. बेंडे एवं मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मुकेश चंद गुप्ता उपस्थित रहेंगे।